



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41]
No. 41]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 1981/कार्तिक 12, 1903
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 1981/KARTIKA 12, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1981

आ. अ. 78 (अ).—भारत निर्वाचन आयोग ने दूरदर्शी पाटी को निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा-3 के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए उस संगठन के आवेदन-पत्र और उक्त आवेदन-पत्र में अन्तर्विष्ट प्रार्थना के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया है और उक्त प्रतीक आदेश के पैरा-3 के उपबंधों के अधीन उस संगठन को गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों के सम्बन्ध में "दूरदर्शी पाटी" के नाम और अभिनाम के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए रजिस्टर करने का विनिश्चय किया है :—

- (1) राजनीतिक दल अपने दल विधान में दिए नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारियों, पते, राजनीतिक सिद्धान्तों नीतियों, लक्ष्यों व उद्देश्यों में किसी प्रकार के परिवर्तन अन्य किसी तात्त्विक विषय में किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में बिना देरी किए निर्वाचन आयोग को संसूचित करेगा ;
- (2) जब कभी दल के विधान में किसी प्रकार के संशोधन किए जाएं तो राजनीतिक दल इन की सूचना ससंगत दस्तावेजों जैसे संशोधनों पर विचार

करने के लिए बैठक की सूचना, बैठक की कार्य-सूची और जिस बैठक में संशोधन किए हों उस बैठक के कार्यवृत्त सहित, आदि निर्वाचन आयोग को तत्काल दे देगा ;

- (3) राजनीतिक दल कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, लेखा बहियों, सदस्यता रजिस्ट्रों, रसीद बहियों, आदि जैसे सभी अभिलेखों को उचित रीति से रखेगा ;
- (4) उक्त अभिलेखों को निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के लिए खोला जा सकेगा ; और
- (5) अनुदत्त रजिस्ट्रेशन का निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाएगा ।

अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा-17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ग) और उप-पैरा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3(2), तारीख 28 सितम्बर, 1979 में का.आ. 557 (अ) के रूप में प्रकाशित और समय-समय पर यथा संशोधित अपनी तारीख 28 सितम्बर, 1979 की अधिसूचना सं. 56/79 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी 3 में, स्तम्भ 1 और 2 के नीचे प्रविष्टि "18-नेशनल डेमोक्रेटिक पाटी-----केरल"

प्रदेश, 19 दूरदर्शी पार्टी - गुजरात और उत्तर प्रदेश प्रतिष्ठित रखी जाएगी।

[स 56/79-26]

आदेश से

के रजिस्ट्रार रचित

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October 1981

O.N 78(E).—Whereas the Election Commission of India has considered the application of Doordarshi Party for registration of that Organisation under paragraph 3 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968 as a political Party, and the documents produce in support of the prayer contained in the said application and has decided to register that Organisation under the name and style of 'Doordarshi Party' in respect of the States of Gujarat and Uttar Pradesh under the provisions of paragraph 3 of the said Symbols Order subject to the following conditions —

- (i) The party shall communicate to the Commission without delay any change in its name, head office, office bearers, address or political principles, policies, aims and objectives and any change in any other material matters,
- (ii) The party shall intimate the Commission immediately whenever any amendments are issued to party consti-

tution along with the relevant documents like notice for the meeting to consider amendments, agenda for the meeting, minutes of the meeting where the amendments have been carried etc.

- (iii) The party shall maintain all the records, like minutes, books, accounts, books, membership registers, receipt books etc. properly.
- (iv) The records shall be open for inspection at any time by the authorised representatives of the Commission and
- (v) The registration granted shall be reviewed by the Commission from time to time.

Now, therefore in pursuance of the provisions contained in clause (c) of sub-para (1) and sub-para (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following amendment to its notification No. 56/79 dated 28th September 1979 published as S.O. 557 (1) in the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3(n), dated the 28th September 1979, and as amended from time to time, namely —

In TABLE 3 appended to the said notification under column 1 and 2 after the entry 18 National Democratic Party — Kerala, the entry 19 Doordarshi Party — Gujarat and Uttar Pradesh shall be inserted.

[No. 56/79-XXVII]

By order

K. GANESAN Secy